



केन्द्रीय विद्यालय संगठन
केन्द्रीय विद्यालय, गोल्डन रॉक, किरुचिरापल्ली - 4

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
KENDRIYA VIDYALAYA, GOLDEN ROCK, TIRUCHIRAPALLI-4

पंजीकरण संख्या /
Regd. No.

बच्चे का फोटो
(पासपोर्ट साइज का)
Photograph
of the child
(Passport size)

क्र. सं./S. No. 2181 सत्र / Session 2020-21
पंजीकरण के लिए कक्षा / Registration for Class.....

1. विद्यार्थी का पूरा नाम (स्पष्ट शब्दों में)
Name of child in full (in Capital letters).....

लिंग / Sex - पुरुष / Male स्त्री / Female तृतीय लिंग / Third Gender

2. जन्म तिथि (अंकों में) Date of Birth (in figure) दिन / Day मास / Month वर्ष / Year

शब्दों में / in words

31.3.20 तक आयु / Age as on 31.03.2020 वर्ष / Year मास / Month दिन / Day

3. बच्चे का रक्त समूह (Rh फैक्टर सहित)
Blood Group of the child (with Rh factor)

4. बच्चे की संबन्धित श्रेणी / The Category to which child belong
सामान्य अनु० जाति अनु० जन जाति ओ०बी०सी० आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग बी.पी.एल. अन्य रूप से सक्षम इकलौती कन्या
General SC ST OBC EWS BPL Diff. Abled S.G. Child

यदि बच्चा क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओ.बी.सी. (अन्य पिछड़े वर्ग)/आर्थिक रूप से कमजोर / बी.पी.एल./ विकलांग/ इकलौती कन्या श्रेणी से संबन्धित है तो कृपया संबन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

If the child belongs to SC/ST/OBC/EWS/BPL/Disabled/S.G. Category, then, Please attach relevant certificate.
P.T.O.

क्र.सं. / S.I. No. 2181
पंजीकरण संख्या / Registration No.....

पावति / ACKNOWLEDGEMENT

सत्र / Session 2020-21

श्री / श्रीमती.....से उनके पुत्र / पुत्री.....का कक्षामें
प्रवेश हेतु पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त किया।

Received an application from Shri / Smt.....for registration of her / his son /
daughter for admission to class.....

तिथि / Date :

प्राचार्य / Principal

केन्द्रीय विद्यालय (मोहर)/Kendriya Vidyalaya (Stamp)

5. माता-पिता का वितरण / Details of Mother / Father		पिता / Father
क्र.सं.	माता / Mother	
(i)	नाम (स्पष्ट शब्दों में) / Name (in Capital letters)	
(ii)	राष्ट्रीयता / Nationality	
(iii)	व्यवसाय / Occupation	
(iv)	कार्यालय का नाम, पूरा पता व दूरभाष . Name of office and Full Address and Telephone Numbers	
(v)	पूर्ण आवासीय पता व दूरभाष (प्रमाण सहित) Full residential Address and tel. no. (with proof)	
(vi)	विद्यालय से दूरी (कि.मी.में) Distance from KV (in km)*	
(vii)	मूल वेतन/ Basic Pay	
(viii)	स्थानांतरणों की संख्या No. of Transfers **	
(ix)	माता पिता की श्रेणी Category of the Parent #	
x)	कर्मचारी कोड (यदि है तो) Employee Code (if any)	

* विद्यालय में आवास की दूरी दूरी के लिए माता-पिता / अभिभावक का सपथ-पत्र मान्य है। आवास प्रमाण - पत्र देना आवश्यक है।
Distance of Residence from Vidyalaya. Undertaking from parents is acceptable for distance. Proof of Residence is compulsory.

** 31.03.2016 तक पिछले सात वर्षों में स्थानांतरणों की संख्या // No. of transfers during last 7 years as on 31.3.2016.

1. केन्द्रीय सरकार / Central Govt. 2. केन्द्रीय सरकार के स्वायत्त संस्थान / Autonomous bodies of Central Govt. 3. राज्य सरकार / State Govt. 4. राज्य सरकार के स्वायत्त संस्थान / Autonomous bodies of State Govt. 5. अन्य / others.

मैं एतद द्वारा यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त प्रविष्टियाँ मेरी जानकारी में सत्य हैं।

I certify that the above entries are true to the best of my our knowledge

माता/पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर

Signature of Mother / Father / Guardian

पूरा नाम / Full Name.....

दिनांक / Date

सेवा प्रमाण-पत्र / SERVICE CERTIFICATE

(केन्द्रीय सरकार / Central Govt.)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती कार्यालय मंत्रालय में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। वे रक्षा सेवा / केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल / सीमा सुरक्षा बल / एन.एस.जी. / एस.पी.जी. / सी.आई.एस.एफ. / केन्द्रीय सरकार/स्वायत्त संस्था अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो पूर्ण या आंशिक रूप में केंद्र सरकार से वित्त-पोषित है, के नियमित कर्मचारी हैं तथा उनकी सेवा अस्थानान्तरणीय है पूर्ण भारत में कहीं भी स्थानान्तरणीय है।

Certified that Shri / Smt.....is working as regular employee in the office / Ministry of He / She is a regular employee of Defence Service / CRPF / BSF / NSG / SPG / CISF/ Central Govt. / Autonomous Body/ Public Sector Undertaking fully financed/partially financed by Central Govt. and his / her services are non-transferable / transferable anywhere in India.

स्थान / Place _____

दिनांक / Date _____

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर
(नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)
Signature of Head of the Office
(With Name, Designation and Office Stamp)

कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या _____

Complete address and Telephone No. of office _____

सेवा प्रमाण-पत्र / SERVICE CERTIFICATE

(राज्य-सरकार / State Govt.)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती कार्यालय / मंत्रालय में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। तथा उनकी सेवा अस्थानान्तरणीय है पूर्ण राज्य में कहीं भी स्थानान्तरणीय है।

Certified that Shri / Smt.....is permanently working in the office / Ministry of He / She is an employee of State Govt. / Autonomous Body/ Public Sector Undertaking fully financed by State Govt. and his/her services are non-transferable / transferable anywhere in State.

स्थान / Place _____

दिनांक / Date _____

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर
(नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)
Signature of Head of the Office
(With Name, Designation and Office Stamp)

कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या _____

Complete address and Telephone No. of office _____

स्थानांतरण संबन्धी प्रमाण-पत्र/CERTIFICATE OF NUMBER OF TRANSFERS

मैं, _____ (नाम) _____ (रैंक/पदनाम) _____ (कार्यालय),
 एतद द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ पिछले सात साल (31.03.2016 तक) में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मेरे
 _____ (अंको व शब्दों में) स्थानांतरण हुए जिनका विवरण नीचे दिया गया है-

I, _____ (Name) _____ (rank/ designation) of _____ (office), do
 hereby certify that during the past 7 years (up to 31.03.2016) I have been transferred
 _____ times (in figures & in words) from one station to another, the details of which are given as under :-

क्र. सं. S. No.	कार्यालय/ यूनिट Office/Unit	स्थान Place	रैंक/पदनाम Rank/Designation	दिनांक/Date		ठहरने की अवधि Period of stay	आदेश संख्या Order No.
				से/ From	तक/To		
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							

मैं जानता/जानती हूँ कि यदि उपरोक्त तथ्य गलत पाए गए तो मेरा बच्चा केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए
 अयोग्य हो जाएगा। I know that if the above-mentioned facts are found incorrect, my child will be disqualified for
 admission in Kendriya Vidyalaya.

माता/पिता के हस्ताक्षर
 Signature of Parent

प्रतिहस्ताक्षर/Countersignature

मैं, _____ (नाम) _____ (रैंक/पदनाम) _____
 (कार्यालय), एतद द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण को कार्यालय-आनेखों से जाँच लिया गया है व सही
 पाया गया है।

I, _____ (name) _____ (rank/designation) of _____
 (unit/department) hereby certify that the particulars given in above have been authenticated by the records held in
 the office and found correct.

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर
 (नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)
 Signature of Head of the Office
 (With Name, Designation and Office Stamp)

स्थान/Place _____
 दिनांक/Date _____

कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या _____
 Complete address and Telephone No. of office _____

टिप्पणी/Note-

एक स्थान पर ठहरने की अवधि कम से कम छह मास होनी चाहिए।
 Minimum period of posting/stay at a place should be minimum six months.